

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 523]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 25, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

अधि. क्र. 38, एफ-1-15-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नगरपालिका परिषदों में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :-

स.क्र.	जिले का नाम	क्र.	नगरपालिका परिषद् का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सागर	1	गढ़ाकोटा	1.	श्री राजेश यादव, श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव, जवाहर वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला सागर.
				2.	श्री शरीफ खान, ठेकेदार, श्री असगर खान, टैगोर वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला सागर.
				3.	श्री तुलसीराम शिल्पी, श्री कालूराम शिल्पकार, आजाद वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला सागर.
				4.	श्री चंद्रकांत साहू, श्री पुरुषोत्तम साहू, शिवाजी वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला सागर.
		2	खुरई	1.	श्री इंद्रराज सिंह, श्री भगवान सिंह, शास्त्री वार्ड, खुरई, जिला सागर.
				2.	श्रीमती मेना सिंह, श्री धर्मेन्द्र सिंह सिंघई, बजाज शोरूम रानी दुर्गावती वार्ड, खुरई, जिला सागर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3.	श्री गोविंद कुर्मी, श्री हरिराम कुर्मी, अब्दुल हमीद वार्ड, खुरई, जिला सागर.
				4.	श्री गोपाल नेमा, श्री राधेश्याम नेमा, भगवान चंदेल वार्ड, खुरई, जिला सागर.
सागर	3	बीना		1.	श्री साजनदास सुंदरानी, श्री हरूमल सुंदरानी, गांधी वार्ड, बीना, जिला सागर.
				2.	श्री सुबोध जैन, श्री जिनेश्वर दास जैन, कानूनगो वार्ड, बीना, जिला सागर.
				3.	श्री समीम खान (पप्पू), स्व. अब्दुल नसीर खान, वीर सावरकर वार्ड बीना, जिला सागर.
				4.	श्री राकेश विलगैया, श्री भगवानदास विलगैया, शिव वार्ड, बीना बडी, जिला सागर.
	4	रहली		1.	श्रीमती सुलोचना सोनी, श्री रामगोपाल सोनी, वार्ड नं. 01, रहली, जिला सागर.
				2.	श्री महादेव गुप्ता, श्री सरमूप्रसाद गुप्ता, वार्ड नं. 02, रहली, जिला सागर.
				3.	श्री नंदराम अहिरवार (अजा), श्री बालकिशन अहिरवार, वार्ड नं. 12, पण्डलपुर वार्ड, रहली, जिला सागर.
				4.	श्री महेश यादव, श्री रमेश यादव, वार्ड नं. 10, सुभाष चौक, रहली, जिला सागर.
	5	मकरोनिया		1.	श्री विवेक सक्सेना, श्री शिवरतन सक्सेना, ज्योतिनगर कालोनी, वार्ड नं. 02, कृष्णानगर वार्ड.
				2.	श्रीमती सुधा शर्मा, श्री पवन शर्मा, गायत्री नगर कालोनी, वार्ड नं. 07, रामलाला वार्ड.
				3.	श्री मधुकर जाटव (अजा), श्री मदनलाल जाटव, सद्भावना नगर, महावीर वार्ड, मकरोनिया, जिला सागर.
	6	देवरी		1.	श्री महेन्द्र, श्री कुंदनलाल लखेरा, सुभाष वार्ड, देवरी, जिला सागर.
				2.	श्री मोहन सिंह, पटेल श्री लीलाधर पटेल, सुभाष वार्ड, देवरी, जिला सागर.
				3.	श्रीमती बनिता विश्वकर्मा, श्री संजय विश्वकर्मा, सुभाष वार्ड, देवरी, जिला सागर.
				4.	श्री सत्यवती लोधी, श्री शिवराज लोधी, पृथ्वी वार्ड, देवरी, जिला सागर.

अधि. क्र. 39, एफ-1-13-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगरपालिक निगमों में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान निगमों के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :—

क्र. (1)	नगरपालिक निगम का नाम (2)	क्र. (3)	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता (4)
1	नगरपालिक निगम, सागर	1.	श्री सुरेश नामदेव, श्री उमाशंकर नामदेव, फौजदार कबाड़ा, इतवारी वार्ड सागर
		2.	श्री प्रभु सिंह, श्री धरमलाल साहू, भूतेश्वर मंदिर के पास, संत रविदास वार्ड, सागर
		3.	श्री अशोक अग्रवाल, श्री शंकरलाल, चकराघाट वार्ड, थाना कोतवाली, सागर
		4.	श्रीमती प्रतिभा चौबे, श्री रामेश्वर चौबे, पंतनगर वार्ड, थाना मोती नगर, सागर
		5.	श्री विशाल खटीक, श्री प्रकाशचंद खटीक, रोहण वकील के सामने, केशवगंज वार्ड, थाना मोतीनगर, सागर.
		6.	श्री अपूर्व सिंघई, श्री निर्मल कुमार जैन, महर्षि दयानंद वार्ड, थाना कोतवाली, सागर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड, उपसचिव.